



# COVID-19 टीका बूस्टर खुराक

## बूस्टर खुराक के लिए कौन पात्र है?

निम्न लोगों को बूस्टर खुराक प्राप्त करने की ज़रूरत है यदि उन्होंने:


-  **Johnson & Johnson** COVID-19 वैक्सीन कम से कम दो महीने पहले लगवाई हो।
-  **Pfizer** या **Moderna** प्राथमिक वैक्सीन की श्रृंखला कम से कम छह महीने पहले लगवाई हो और वे:
  - 65 वर्ष और उससे अधिक हैं।
  - 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग, जो दीर्घकालिक देखभाल सेटिंग्स में रहते हैं।
  - 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग, जिन्हें अंतर्निहित चिकित्सीय स्थितियां।
  - 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग, जो उच्च-जोखिम सेटिंग्स में रहते हैं या काम करते हैं, जैसे कि:
    - जो स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, विनिर्माण क्षेत्र में काम करते हैं।
    - जो आश्रितों की तरह साझा करके या अलग-अलग सेटिंग्स में रहते हैं।

पात्र व्यक्ति यह चुन सकते हैं कि उन्हें बूस्टर खुराक के रूप में कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए।

**अभी तक पात्र नहीं हैं?** चिंता न करें, COVID-19 वैक्सीन प्राथमिक श्रृंखला के बाद मज़बूत सुरक्षा प्रदान करती हैं। यहां तक कि अधिक संक्रामक रूपांतर और समय के साथ वैक्सीन का प्रभाव कम होने के बावजूद, बिना टीकाकरण करवाए हुए लोगों की तुलना में पूरी तरह से टीकाकरण करवाए हुए लोगों को बीमार होने या बीमारी को फैलाने की संभावना बहुत कम है।





## कुछ लोगों को बूस्टर खुराक की आवश्यकता क्यों होती है?

प्रमाणों से पता चलता है कि जो लोग शुरू में वैक्सीन द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित थे उनकी प्रतिरक्षा समय के साथ कम हो रही है। उन लोगों के लिए, बूस्टर खुराक COVID-19 से होनेवाले संक्रमण, गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के खिलाफ उनकी सुरक्षा को मजबूत और विस्तारित करेगी।



## बूस्टर खुराक और अतिरिक्त खुराक के बीच क्या अंतर है?

वे सभी एक ही तरह की वैक्सीन सामग्री का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके नाम अलग-अलग होते हैं, ताकि लोगों को पता हो कि किस व्यक्ति को बूस्टर खुराक या अतिरिक्त खुराक की आवश्यकता कब और क्यों होती है

	बूस्टर खुराक	अतिरिक्त खुराकें
 <b>कौन</b>	वे सभी लोग जिन्हें Johnson & Johnson वैक्सीन लगी है, साथ ही कुछ ऐसे समूह जिन्हें COVID-19 से <b>अधिक जोखिम है</b> और उन्हें Pfizer या Moderna वैक्सीन लगी है।	उन लोगों के लिए जो <u>मध्यम रूप से लेकर गंभीर रूप तक प्रतिरक्षित हैं</u> ।
 <b>क्यों</b>	मज़बूत होने के बाद प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, समय के साथ प्रारंभिक संरक्षण में <b>कमी आ सकती है</b> ।	उन लोगों की सुरक्षा के लिए जिन्होंने प्राथमिक टीकाकरण श्रृंखला के बाद <b>मज़बूत प्रतिरक्षा नहीं बनाई होगी</b> ।
 <b>कब</b>	Johnson & Johnson के <b>2 महीने</b> या Pfizer या Moderna की आखिरी खुराक के <b>6 महीने</b> के बाद पात्रता शुरू होती है।	Pfizer या Moderna वैक्सीन की प्राथमिक श्रृंखला की अंतिम खुराक के <b>28 दिन</b> के बाद पात्रता शुरू होती है।
 <b>कितनी</b>	<b>Pfizer</b> या <b>Johnson &amp; Johnson</b> वैक्सीन की पूरी खुराक या <b>Moderna की आधी खुराक</b> की वैक्सीन के लिए योग्य हैं।	केवल <b>Pfizer</b> या <b>Moderna</b> वैक्सीन की पूरी खुराक के लिए पात्र हैं।

जिन लोगों को अतिरिक्त mRNA खुराक लगी है, उन्हें छह महीने बाद बूस्टर खुराक भी लग सकती है।

**जहां से भी आप COVID-19 वैक्सीन लगवाते हैं, वहीं से बूस्टर खुराक प्राप्त करें।**

आस-पास के स्थानों का पता लगाने के लिए [vaccines.gov](https://www.vaccines.gov) खोजें, 211 पर कॉल करें, या अपने ज़िप कोड को 438829 पर टेक्स्ट करें।

बूस्टर खुराक हमें वायरस से एक कदम आगे रहने और सुरक्षित रखने में मदद करती है। जिन लोगों का टीकाकरण **नहीं हुआ है, उन्हें अभी भी COVID-19 से अधिक खतरा है**। महामारी को समाप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास, लोगों को उनकी प्राथमिक वैक्सीन श्रृंखला प्रदान करने में मदद करना है।

बूस्टर खुराक के बारे में [dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-dose.htm](https://dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-dose.htm) पर अधिक जानें